

Ref: SEC/SE/2018

January 15, 2018

National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot no. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex,Bandra (E) Mumbai - 400 051

Metropolitan Stock Exchange of India Limited 4th Floor, Vibgyor Towers, Plot No. 62 G Block, Opp. Trident Hotel Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) **Mumbai - 400 098** Corporate Relation Department Bombay Stock Exchange Ltd., 1st floor, Rotunda Building, B S Marg, Fort, Mumbai - 400 001

<u>Sub:</u> <u>Publication of Notice for loss of share certificates</u>

Dear Sirs,

In compliance of provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are pleased to enclose copies each of the Financial Express (English Daily) and Jansatta (Hindi Daily) both dated 13th January, 2018 in which notice for loss of share certificates by shareholders of the Company have been published.

Submitted for your information and records pl.

Thanking you,
Yours faithfully,
for DABUR INDIA LIMITED

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

INTERNATIONAL 21

Intel's response to chip meltdown deepens rift with Microsoft

BLOOMBERG

San Francisco, January 12

RECENTREVELATIONSTHAT millions of Intel's chips carry a security flaw is putting a deeper strain on the company's decades-long partnership with Microsoft.

Dubbed Wintel, the two technology giants worked hand in hand for much of the PC era, with Microsoft building the Windows operating system and Intel making the chips to run it. But as mobile technology began to replace PCs' prowess, both companies sought new partners and the alliance started to fray.

News last week of vulnerabilities in Intel's processors has driven the wedge between the two even further, forcing Microsoft to do much of the work to patch security holes and both disagreeing over the extent of the possible disruptions to customer operations.



Regd. Off: A-6/343B, 1st Floor, Paschim Vihar, New Delhi-110063 Email: secretarial.mnil@gmail.com. Website: www.mnil.in. Phone: 011-49879687

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, January 20, 2018, at 1:00 pm interalia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended December 31, 2017.

Acopy of the Notice and the Financial results shall also be available on the website of the Company and of the Stock Exchange i.e.www.mnil.in and www.bseindia.com, respectively. For Mega Nirman& Industries Limited

Director

Varun Gaur Place: New Delhi Date:12.01.2018 (DIN:07721184)

JTL INFRA LIMITED SCO: 18-19, Sector 28-C,

CIN no. L27106CH1991PLC011536 Website: www.jaganinternational.com

NOTICE Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 & 33 read with Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a Meeting of Board of Directors of the Company (J T L Infra Limited) for the Year 2017-18, is scheduled to be held on Wednesday the 24th Day of January, 2018, inter-alia to consider & approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the Quarter & nine month ended on 31st December 2017, at the Registered Office of the Company, at SCO 18-19, Sector-28 C, Chandigarh. The Notice is also available on the website of the company i.e.

website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com, www.msei.com. For & on behalf of M/s JTL Infra Limited

www.jaganinternational.com & on the

Neeraj Kaushal Place: Chandigarh Company Secretary Date: 12.01.2018

The incident has brought into focus the computer industry's utter dependence on Intel, which controls more than 90% of the market for laptop processors and has a near monopoly in server chips.

That too has implications for Microsoft, which in recent years has become a cloud computing service provider to lessen its reliance on operating systems and business programs. As a big buyer of Intel server chips, Microsoft is also susceptible to fallout from the supplier's design

For most of the six months since Intel made Microsoft aware of the problem, the two worked closely together to try to preempt an industrywide meltdown.

REPAIR AND RENOVATION WORKS e-Tender (Tender No.: T/Pub/GRC/2017 218 Dt. 10.01.2018) is invited by the Sr. Divisional Engineer, South Eastern Railway, Garden Reach, Kolkata-700 043 for and on behalf of the President of India for the following work before 15.00 hrs. on 16.02.2018 and will be opened at 15.30 hrs. on 16.02.2018. Description of Works: Repair and Renovation of Yamuna Officers Rest House at New Delhi. Tender Value: Rs. 17,44,277.67. Earnest Money Rs. 34,890/-. Cost of Tender Documents Rs. 2,000/-. Date of Closing: 16.02.2018 Completion Period of the Work: 03 (Three) Months. Date of Submission: From 02.02.2018 and upto 15.00 hrs. on 16.02.2018. Tenderers may visit website www.ireps.gov.in for full Details/ Description/Specification of the tenders and submit their bids online. In no case manual tenders for these works will

South Eastern Railway



INDIAN TONERS & DEVELOPERS LIMITED

(CIN L74993UP1990PLC015721) Regd. Office: 10.5 Km Milestone, Rampur Bareilly Road, Rampur - 244 901 (U.P.)

E-Mail ID: info@indiantoners.com, Website: www.indiantoners.com Phone No.: 0595-2356271, Fax No.: 0595-2356273 NOTICE FOR LOSS OF SHARES

Notice is hereby given that the following share certificate(s) have been reported as lost/stolen/misplaced/not traceable and the registered holder(s) has/have applied to the company for issue of duplicate share certificates.

Folio No.	Name of shareholder(s)	Distinct	ive Nos.	Certificate No.	No. of shares	
31561	DHRUV JAIN	6189701	6191200	48190	1500	
13611	MRUDULA G JAGGAD Jt. GANPATLAL H JAGGAD	3851801	3851900	26511	100	

Any person(s) who has/have any claim in respect of these share certificates should write t the company at the address given above within 15 days from the date of publication of this notice. In case where no objection is received within 15 days, the company will proceed to issue duplicate share certificates. The public is hereby warned against purchasing or dealing in anyway with the above share certificates. For Indian Toners & Developers Limited

Place: New Delhi (S.C. SINGHAL)

COMPANY SECRETARY

U.P. POWER CORPORATION LIMITED **TENDER NOTICE** Specification 01/UPPCL/PLANNING/UMPP/2018

E-tenders are invited in two parts (Part I- Technical Bid and Part-II- Price Bid) for Engaging a service provider firm for "An Automated Software tool Based on Intraday Load Forecast Model, Long Term, Medium Term, Short Term, Day Ahead and Web Based Optimized Scheduling, Energy Portfolio Management, Power Exchange Price Forecast Model and Cost **Optimization Model for utility**". The bids are invited from the Consulting Firms/Companies, accompanied with the requisite Earnest Money Deposit of Rs. 1,50,000/-(Rupees one Lakhs Fifty Thousand only) and the prescibed Tender Fee Rs. 5,000/- (Rs. Five Thousand only) + GST (as applicable) drawn in favour of "Accounts Officer, Central Payment Cell, U.P. Power Corporation Ltd. Shakti Bhawan Extension, Lucknow-226001 payable at Lucknow" अथवा "लेखाधिकारी, केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ, उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ "The tender documents would be available for download from NIC Portal (https://etender.up.nic.in) from 22-01-2018. The bids can be uploaded on NIC Portal https://etender.up.nic.in **starting from 22-01-2018 to 21.02-2018**. Part-I of the e-Bid including EMD and Tender Fee will be opend on 22-02-2018 at 15.00 Hrs. in presence of their representatives who choose to be preset during the bid opening process. Sd/- CHIEF ENGINEER (PLANNING), U.P. POWER CORPORATION LTD, 3RD FLOOR, SHAKTI BHAWAN EXTN. 14 ASHOK MARG, LUCKNOW - 226001 email: cgm2plg@yahoo.co.in cgm2plg@gmail.com Phone **0522-2287343/ 2288484** विज्ञापन निर्गमन आदेश सं. 13-जस/पा.का.लि./18



ANDHRA BANK

B-12, Sector-E, Aliganj, Lucknow-226024 (Uttar Pradesh) Tel. No.: 0522-2329420

DEMAND NOTICE

दिनांक 12.1.2018

Notice Under Section 13(2) Of Act 54 Of 2002 For Enforcement Of Security Interest

SI. No.	Name and Address of Borrowers	Description of mortgaged Property	Amount Outstanding Demand Notice Date
1.	Borrower: M/s Om Sai Nigam Jewellers, 537 F/P-048 Indrapuri IIM Road Sherwani Nagar Lucknow 226020 (Uttar Pradesh) Its Proprietor: Mr.vijay Nigam S/o Mewa Lal 138K, Sant Nagar Anshik Sidhuali, Sitapur 261302 (Uttar Pradesh)	Against Hypothecation of NA and/or against Mortgage of The Properties Detailed Under: 1. Property: Land Residential belonging to Mrs. Rekha Nigam W/o Vijay Nigam (Owner of the Property), Situated at EMD Plot Kahsra No 432(M) Village Tarhiya, Pargana Mahona, Tehsil Bakshi Ka Talab District Lucknow Extent Area 1880 Square Feet and Bounded By: A. East: Plot of Seller, B. West: Road 20 Feet,	₹ 20,00,625/- Dt. 27.11.2017 (As on dt. 05.12.2017)

Guarantors: 1. Rekha Nigam | C. North: Plot of others, D. South: Road 20 Feet W/o Vijay Nigam 138K, Sant 2. Property: Land and Building - Residential Nagar Anshik Sidhuali, Sitapur belonging to Mrs. Rekha Nigam W/o Vijay Nigam 261302 (Uttar Pradesh) (Owner of the Property) House at Plot No. 48, Part 2. Kripa Shanker Awasthi S/o of Khasra No. 216 (M) Extent Area 70.53 Sq. Meter Shiv Kumar Awasthi H. No. Situated at Semragaurhi, Ward Faizullahgani, Tehsil 538 KA/456/69 Jai Guru Dev and District Lucknow which is Bounded Below: A. Nagar Triveni Nagar 3 Sitapur | East: Raasta 20 Feet B. West: Raasta 20 Feet C. Road, Lucknow-226021 (Uttar | North : Plot No. 48-A D. South : Raasta 17 Feet

As you have defaulted in repayment of the Principal loan/facility and/or instalments/interest or both, and/ or the account has remained out of order for a period exceeding RBI norms, your account has been classified as NPA on above mentioned dated & all of you are jointly and severally liable to pay amount with subsequent interest as per the agreement(s).

You are hereby called upon to pay the said outstanding amount together with upto date interest within 60 day from the date of receipt of this notice, falling which, the bank shall be constrained to take any one or more of the following measures against the properties hypothecated/mortgaged to the bank detailed above, to recover the amount, without the intervention of the court, as provided under the Securitization and Reconstruction of financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (54 of 2002) i.e.

1. Take possession of the secured assets of the borrower Including the right to transfer by the way of lease, assignment or sale for realizing the secured asset/s. 2. Takeover the management of the secured asset/s of the borrower including the right to transfer by the way of lease, assignment or sale and realize the secured asset/s. 3. Appoint any person (hereafter referred to as the manager) to manage the secured asset/s the possession of which has been taken over by the secured creditor 4. Require at any time, by notice in writing any person who has acquired any of the secured assets from the Borrower and from whom any money is due or may become due to the Borrower, to pay the Bank, so much of the money as is sufficient to pay the secured debt.

Please take notice that after receipt of this notice, you shall not transfer by the way of sale, lease or otherwise any of the secured assets referred to in the notice, without prior written consent of the Bank.

The charges, expenses incurred for taking the aforesaid actions shall be met out of the sale proceeds and if the sale proceeds are found insufficient to satisfy the entire amount due to the Bank, for the balance amount appropriate legal action as provided in the SARFAESI Act 54 of 2002 or any other Act as deemed necessary will be taken against you, holding all of you jointly and severally liable to all costs and consequences thereof.

It may be noted that under the provisions of the section 13(8) of the Act, right of redemption is available to you, by paying the dues of the Bank together with all costs, incurred by the Bank, at any time, before the date of publication of notice, for public auction or inviting quotations or tender from public or private treaty for transfer by way of lease, assignment or sale of the secured assets.

This notice is issued without prejudice to the rights of the Bank available under any other law. Date: 12.01.2018 Place: Lucknow

Authorized Officer, Andhra Bank

BTG Global Advisory

RAAS

INTEGRATED CAPITAL SERVICES LIMITED CIN: L74899DL1993PLC051981

Regd. Office: 606, New Delhi House, Barakhamba Road, New Delhi 110 001 T/F + 91 11 4354 2784, Email contact@raas.co.in, Website www.raas.co.in NOTICE OF COURT CONVENED MEETING OF EQUITY SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the Court Convened Meeting of the Equity Shareholders of the Compan is to be held on Tuesday, February 06, 2018 at 12:30 p.m. at Check In by ORAN, 104 Babar Road Opp. World Trade Center, Connaught Place, New Delhi - 110001

The notice proposes the following resolution for consideration of the shareholders: Sr. No. Type of Resolution **Particulars**

Special Resolution Approval of the Scheme of Arrangement, in terms of Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013, read with other applicable provisions if any, between Deora Associates Private Limited ("the Transferor Company") and Integrated Capital Services Limited ("the Transferee Company") and their respective members and creditors ("Scheme") Equity Shareholders of the Company are hereby informed that the Company has completed the

dispatch of notices alongwith postal ballot forms of its Court Convened Meeting on Friday, Januar 05, 2018, pursuant to Section 108 and 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, in accordance with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015, the Company is pleased to provide equity shareholders facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Court Convened Meeting either by electronic means or by way of postal ballot.

The remote e-voting period and postal ballot commences on January 07, 2018 (9:00 am) and ends on February 05, 2018 (5:00 pm). During this period equity shareholders of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of December 29, 2017, may cast their vote either by remote e-voting or postal ballot. The facility of casting the votes by the equity shareholders using the electronic voting system

from a place other than venue of the Court Convened Meeting ("remote e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL). A postal ballot form along with self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope ("BRE" is enclosed with Notices sent to the equity shareholders. Equity Shareholders are requested to

carefully read the instructions printed on the postal ballot form and return the duly completed with assent(for) or dissent(against), in the enclosed BRE, so as to reach the Scrutinizer on or before Monday, February 05, 2018 at 05:00 p.m. IST at A-308, LGF. Defence Colony. New Delhi. Postal Ballot Form(s), if sent by courier or by registered post / speed post at the expense of equity shareholders will also be accepted. The postal ballot form may also be accepted personally at the above mentioned address. Postal Ballot Form(s) received after 05:00 p.m. IST on Monday, February 05, 2018 shall be considered as invalid. In case an equity shareholder is desirous of obtaining a printed duplicate / physical postal ballot

form, he or she may send request by letter at the corporate office of the Company or send email to contact@raas.co.in or delhi@linkintime.co.in.

Any queries or grievances pertaining to voting by postal ballot including the remote e-voting can be addressed to Ms. Shivani Arora, Company Secretary and Compliance Officer of the Company at 606, New Delhi House, Barakhamba road, New Delhi - 110001

Place: New Delhi Date: January 11, 2018

Jayant Mehta (Chairperson appointed for the meeting)



कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० विद्युत खण्ड - द्वितीय, प्रशासनिक भवन, सेक्टर बी-3, ट्रांस दिल्ली ग्नेचर सिटी, लोनी, गाजियाबाद। website: www.upsidc.com

ई-निविदा सचना राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 एवं अन्य सरकारी विभागों / सार्वजनिक

प्पक्रमों / निगमों / प्राधिकरणों / परिषदों / नगर निकायों में अर्ह श्रेणी के पंजीकृत फर्मों / ठेकेदारों से निम्न कार्यों हेत ई—निविदा आमंत्रित की जाती है. जिन्हें दिनांक 20.01.2018 को पर्वान्ह 11.00 बजे र दिनांक 30.01.2018 को अपरान्ह 5.00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है और प्राप्त ई–निविदाअं को दिनांक 31.01.2018 को पर्वान्ह 11.00 बजे खोला जायेगा। नेविदाओं की प्रक्रिया द्विस्तरीय पद्धति की तरह होगी। निविदा में निर्धारित तिथि, एवं समय पर केवल

सम्बन्धी आवश्यक प्रपत्र खोले जायेंगे और उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं की फाइनेन्सियल बिड दिनांक 03.02.2018 को पूर्वान्ह 11.00 बजे खोली जायेगी। निविदादाताओं को E-tender document, eligibility statement, fee formate को पूर्ण करते हुए हस्ताक्षरित कर सहायक दरतावेजों सहित Technical Bid Envelop में एवं Bill Of Quantity को Financial Bid envelop में अलग—अलग अपलोड करना अनिवार्य है।

क्रम सं0	कार्य का नाम	कार्य की लागत (रू० लाख में)		कार्य पूर्ण करने की अवधि
П	Providing Street Light Mains with ACSR Weasel conductor on Newly Erected Poles at I.A. Begrajpur, Distt. Muzaffarnagar.	Rs. 5.53 Lacs	C & Above	04 Months
	Upgradation of Street Lighting System in I.A. Sikandrabad Distt. Bulandshahar		A & Above	06 Months
नोर	ः निविद्। दाता अपनी निविदाओं में समस्त ।	कर एवं जी०एस	०टी० सरि	हेत दरें अंकित

करें । अलग से कोई कर देय नहीं होगा । नेविदादाताओं द्वारा अपलोड किए गए समस्त शपथ प्रपत्रों की मल प्रतियों को पंजीकत डाक अथवा

व्यक्तिगत रूप से दिनांक 02.02.2018 की सायं 5.00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त कराना अनिवार्य है अन्यथा निविदा को Consider नहीं किया जायेगा। निविदा सम्बन्धी समस्त विवरण व शते यूपीएसआईडीसी की website: www.upsidc.com पर स्थित ई-लिंक एवं यूपीएलसी की website: http://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है। अधिशाची अभियन्ता (वि०)

उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, गाजियाबाद। ई०मेल- ed2@upsidc.com



DABUR INDIA LIMITED CIN - L24230DL1975PLC007908

Regd. Office: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002 Tel. No. - 011-23253488, Fax No. - 011-23222051 Website - www.dabur.com; e-mail: investors@mail.dabur

NOTICE
Notice is hereby given that the undermentioned share certificates of the Company have been reported to be lost or
misplaced

OL.NO	I OLIO NO.	IVANL	CERTIFICATE NOS	SHAKES	DISTINCTIVE NOS
1	DIL0021698	PRATAP BADWAIK PRABODH BADWAIK	87143	1000	605029226- 605030225
2	DIL0901090	DHARMARAJAN THAYYIL	57827** 73853	100** 1000	28091551-28091650** 36068291- 36069290
3	DIL0046367	PARESH R PETHANI	36897-36900** 72820 82027- 82030 106163	400** 4000 4000 12000	25998551- 25998950** 35051591- 35055590 601743989- 601747988 903386441- 903398440
4	DIL0032806	PARTHA SARATHI SAIKIA	5395** 71632 107313	100** 1000 3000	22848351- 22848450 ** 33651501- 33652500 905454650- 905457649
5	DIL0047151	MANJU AGRAWAL	72898 82063 88086 105494	1000 1000 1000 3000	35142601-35143600 601778999-601779998 605955808-605956807 902109024-902112023
6	DIL0042174	ARUN JAIN	34541** 81858 87927	100** 1000 1000	25762951-25763050** 601579249-601580248 605799158-605800157

901062575-901065574 34632981-34633980 hares of nominal value of Rs.10/- each of Dabur India Limited. ny person who has a claim or lien or interest in the above shares and having any objection to the issue of duplicate e certificates in lieu of the above, is requested to notify the same to the Company at its Registered Office latest by

case company does not receive any objection within aforesaid period it shall proceed with the issue of new share ficates of the face value of Re.1 each in lieu of the old shares of the face value of Rs.10 or Re.1 each, as the case be, comprised in the above mentioned lost share certificates without entertaining any claim/damages whatsoever it

1.2018,indicating the nature of the claim, lien or interest of his/her objection to the said issue of duplicate share

he submission of documents by the members to the company shall be deemed to be completed on 28.01.2018 being for DABUR INDIA LIMITED

New Delhi 13.01.2018

(A K JAIN) V.P. (Finance) & Company Secretary

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India Whereas the undersigned being the authorized officer of the

the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) / #

1 21 3 calling upon the \$ 4 5 + % &1 & 6 5 / 71 5 + % to repay the amount mentioned in the notice being / 2 8 91: % 4 +

+) #+, < < = within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower/guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred on him under Sub-section (4) of Section 13 of the Act read with the Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the + ! >

Borrower/Guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of for an amount of

#+,< < 10th Day of January 2018 and interest thereon. The Borrower's/Guarantor's attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section (13) of the Act, in respect of time

available, to redeem the secured assets. & / '); 55 ? \$): 5)# (7 / ! /= , # ' 99 / ' :) % ? ?## = + 3 &6! (22 A9 &6 5 ! 5 + % & 1 & 6 \$ Plot No.M.M. 74 12 Mtr. Wide Road

Plot No.C1/45

#\$ % I

Plot No.C1/43

SHARES & STAKES

WE Buy- Physical / Listed / Delisted / Demat Shares. **Contact: Wizard Global** Corporation-8010664664, 9654361244. Websitewww.physicalshares.com Email:

sharesbond@gmail.com 0040429982-16

(FORM NO. INC 26) Before the Central Government/Regional Director, Northern Region, New Delhi In the matter of sub section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of Harsha Interior Decorators Private Limited Registered Office: Flat No. 895, GH 5&7, Paschim Vihar, New Delhi-110087

Notice is hereby given to the General Public that

the Company proposes to make an application to the Central Government/Regional Director Northern Region, New Delhi, under Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of subrule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation Rules, 2014 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 30.12.2017 to enable the Company to change its Registered office from "National Capital Territory of Delhi" to "State of Haryana". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-

21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address REGIONAL DIRECTOR NORTHERN REGION, B-2 WING, 2nd FLOOR, PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX NEW DELHI-110003 within Fourteen (14) days of the date of publication to this notice with a copy to the applicant Company at its registered office For and on behalf of Board of Director of For Harsha Interior Decorators Private Limited

(ABHINAV GEHLOT Director Date: 11.01.2018 DIN: 01248947 17/28, Geeta Bhawan Road, Jyoti Park Gurgaon, Haryana-122001

Morepen Laboratories Limited (CIN: L24231HP1984PLC006028)

Regd. Office: Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Distt, Solan, H.P.-173 205 NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, 22nd January, 2018, inter-alia, to consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter and Nine-months ended 31 December, 2017.

For further details, refer to following websites: Morepen Laboratories Ltd. http://www.morepen.com National Stock Exchange http://www.nseindia.com Bombay Stock Exchange http://www.bseindia.com

For Morepen Laboratories Limited

Date: 12/01/2018 (Thomas P. Joshua) Place: New Delhi Company Secretary

GOVERNMENT OF INDIA DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES MADRAS REGIONAL PURCHASE UNIT (MRPU) E-TENDER NOTICE

ONLINE tenders are invited by Regional Director, MRPU for and on behalf of President of India for the following tender enquiries. Tender No. **Brief Description Due Date:** 14:30 Hrs.

DPS/MRPU/IGCAR/ PERSPEX MODELS 30/01/2018 CAP/9200/PT-2313 2 DPS/MRPU/IGCAR/ LabVIEW development mod- 08/02/2018 /COMP/6787/PT-2390 ules 3 DPS/MRPU/IGCAR/C Resonance based fatigue 15/02/2018 AP/9272/TPT-2391 crack growth machines 4 DPS/MRPU/INRPK/C SODIUM NITRITE 12/02/2018 HEM/5033/PT-2392

5 DPS/MRPU/ESL/MIA/ P-TYPE. HIGH PURITY GER- 13/02/2018 7672/PT-2393 MANIUM (HPGe)COAXIAL DETECTOR Complete tender documents are available in the e-tender portal http://etenders.dpsdae.gov.in. The tender should be submitted

REF: MRPU/PT/ET/302 **REGIONAL DIRECTOR**

DELHI JAL BOARD: GOVT. OF N.C.T. OF DELHI OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (NW) II H-BLOCK: SECTOR-15: ROHINI: DELHI-110089 PH: 27851040 (E-MAIL eenw2.djb@gmail.com)

PRESS NIT NO. 46 (2017-18) **Proce Notice Tender**

ONLINE as per the tender document.

S. No	Name of Work	Amount put to Tender	Earnest Money/ Tender Fee	Date of release of tender procurement Solution/ I.D. No.	Last date/ time of receipt of bid through e procurement solution
1.	Providing water facilities in Metro Khurd SRC at Holambi Khurd in AC-01 Narela under EE (NW)-II		Rs. 1,32,400/- Rs. 1000/-	10.01.2018 2018_DJB _143442_1	05.02.2018 Upto 3.00 PM
2.	Making funcitional to laid system of water line by DUSIB in Metro Vihar Ph-II (Holambi Kalan, Ph-II) by P/L water line in leftout streets and commissioning of UGR in AC-01 Narela under EE (NW) II	1,85,38,031/-	Rs. 3,70,800/- Rs. 1000/-	10.01.2018 2018_DJB _143445_1	05.02.2018 Upto 3.00 PM

Further details in this regard can be seen at https://govtprocurement.delhi.gov.in. ISSUED BY P.R.O. (WATER)

Advt. No. J.S.V. 446/2017-18 **Executive Engineer (NW) II**

Punjab & Sind Bank POSSESSION NOTICE A Govt. of India Undertaking, Zonal Office: 8, Jwaladevi Building, Lalbagh, Lucknow.

Whereas the undersigned being the authorized officer of the Punjab & Sind Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002 issued Demand Notice calling upon the

borrowers detailed below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers, Guarantors and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13 (4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on the dates as mentioned below.

The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the mentioned property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Punjab & Sind Bank for the amount/liability and interest thereon due from the borrowers as mentioned below. The borrower's attention is invited to the provisions of Sub - Section (8) of section 13 of the act, in respect of time available to redeem the secured assets.

S. Name of the borrower Demand Notice Dt. Description of claimed in the Immovable property No. and guarantor Symbolic Possession Date notice Branch : P. Road Kanpur. 1. Borrower: M/s Shiva Industries All that part and parcel of the Residential ₹ 6.60.155.89 04.10.2017 Property at Plot (Part) in Arazies Gata No. Proprietor- Smt. Madhuri Devi W/o Shr as on 30.09.201 08.01.2018 Gaurav Kumar Tripathi R/o Keshav 2843 Kha and 2844, Rasoolabad Nagar, Tehsi + Intt. & other Nagar, Rasoolabad, Distt. Ramabai Nagar, Rasoolabad, District Ramabai Nagar (Kanpur Charges w.e.f. Dehat) Admeasuring 303 sq.mtr. registered on Kanpur Dehat. 01.10.2017 Guarantor: 1. Shri Gaurav Kumar 30.07.2010 in the office of Sub-Registrar Tripathi S/o Shri Rama Shanker Tripathi Rasoolabad Ramabai Nagar at Book No. 1, Khand - 1251, Page No. 1 to 42, Serial No. 2. Smt. Laxmi Tripathi W/o Shri Ram Shanker Tripathi 2871, Owner: Smt. Madhuri Devi W/o Shri 3. Shri Ram Shanker Tripathi S/o Shri Gaurav Kumar Tripathi, Boundaries: East: Path, West : Plot of Seller, North; Plot of Seller. Shahaiadev Lal Tripathi M R/o Keshav Nagar, Rasoolabad, Distt. South: Plot of Seller Ramabai Nagar, Kanpur Dehat. Place: Kanpur Date: 13.01.2018 Authorized Office



ANDHRA BANK

Deoria Branch, Plot No. 328, Kotwali Road, Deoria-274001 Tel. No. 05568-220097

DEMAND NOTICE

Notice Under Section 13(2) Of Act 54 Of 2002 For Enforcement Of Security Interest						
Name and Address of	Description of	Amount Outstanding				
Borrowers	mortgaged Property	Demand Notice Date				
Borrower : Om Prakash	Against Hypothecation of NA and/or against Mortgage	₹ 9,77,965.68				
Verma S/o Ramesh	of The Properties Detailed Under :	Dt. 08.11.2017				
		(As on dt.				
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	21.12.2017)				
	House No. 441/1 Area : 0.014 Hect. i.e. 141.63 Sq. meter					
: Mrs Shushila Devi H.No.	Village-Pidra Sundar Nagar, Ward No10, Ramgulam Tola					
441/1 Ramgulam Tola	East, Tappa-Gobrai, Pargana-Salempur Majhauli, Tehsil &					
East, Ward No10 Khand	DisttDeoria boundary of Plot No. 581, 587M (Deed No.					
	,					
Co-obligant : Mr	Upadhya West: Plot of Lilawati Devi North: Plot of Sunita					
Bhadrasen Sharma Plot No.	Upadhyay South : Plot of Hareram					
3429 Piprapati, Ambedkar	Boundary of Plot No. 582, 583, 584, 585 & 586 (Deed No.					
Nagar, Bhikampur Road	2577 dated 28.04.2010/29.04.2010) East : Plot of Sunita					
Deoria-274001 DistDeoria	Upadhyay West: Plot of Sushila Devi North: Plot of Co-					
	Name and Address of Borrowers Borrower: Om Prakash Verma S/o Ramesh Chandra Verma, H.No. 320 Ram Gulam Tola East Deoria Distt. Deoria Co-Applicant/Mortgagor : Mrs Shushila Devi H.No. 441/1 Ramgulam Tola East, Ward No10 Khand 3 Deoria Co-obligant: Mr Bhadrasen Sharma Plot No. 3429 Piprapati, Ambedkar Nagar, Bhikampur Road	Name and Address of Borrowers Borrower: Om Prakash Verma S/o Ramesh Chandra Verma, H.No. 320 Ram Gulam Tola East Deoria Distt. Deoria Co-Applicant/Mortgagor: Mrs Shushila Devi H.No. 441/1 Ramgulam Tola East, Ward No10 Khand 3 Deoria Co-obligant: Mr Bhadrasen Sharma Plot No. 3429 Piprapati, Ambedkar Nagar, Bhikampur Road Against Hypothecation of NA and/or against Mortgage of The Properties Detailed Under: Land and Building - Residential belonging to Smt. Sushila Devi W/o Sri Ramesh Chandra (Owner of the Property), situated at Plot no. 581M, 587M, 582, 583, 584, 585 & 586 House No. 441/1 Area: 0.014 Hect. i.e. 141.63 Sq. meter Village-Pidra Sundar Nagar, Ward No10, Ramgulam Tola East, Tappa-Gobrai, Pargana-Salempur Majhauli, Tehsil & DisttDeoria boundary of Plot No. 581, 587M (Deed No. 5790 dated 04.09.2009/05.09.2009) East: Plot of Sunita Upadhyay South: Plot of Hareram Boundary of Plot No. 582, 583, 584, 585 & 586 (Deed No. 2577 dated 28.04.2010/29.04.2010) East: Plot of Sunita				

As you have defaulted in repayment of the Principal loan/facility and/or instalments/interest or both, and or the account has remained out of order for a period exceeding RBI norms, your account has been classified as NPA on above mentioned dated & all of you are jointly and severally liable to pay amount with subsequen interest as per the agreement(s).

sharer South : Plot of Harish Chandra

You are hereby called upon to pay the said outstanding amount together with upto date interest within 60 day from the date of receipt of this notice, falling which, the bank shall be constrained to take any one or more o the following measures against the properties hypothecated/mortgaged to the bank detailed above, to recover the amount, without the intervention of the court, as provided under the Securitization and Reconstruction of financia Assets and Enforcement of Security Interest Act (54 of 2002) i.e.

 Take possession of the secured assets of the borrower Including the right to transfer by the way of lease assignment or sale for realizing the secured asset/s. 2. Takeover the management of the secured asset/s of the borrower Including the right to transfer by the way of lease, assignment or sale and realize the secured asset/s. 3 Appoint any person (hereafter referred to as the manager) to manage the secured asset/s the possession of which has been taken over by the secured creditor 4. Require at any time, by notice in writing any person who has acquired any of the secured assets from the Borrower and from whom any money is due or may become due to the Borrower to pay the Bank, so much of the money as is sufficient to pay the secured debt.

Please take notice that after receipt of this notice, you shall not transfer by the way of sale, lease or otherwise any of the secured assets referred to in the notice, without prior written consent of the Bank.

The charges, expenses incurred for taking the aforesaid actions shall be met out of the sale proceeds and if the sale proceeds are found insufficient to satisfy the entire amount due to the Bank, for the balance amount appropriate legal action as provided in the SARFAESI Act 54 of 2002 or any other Act as deemed necessary will be taken agains you, holding all of you jointly and severally liable to all costs and consequences thereof.

It may be noted that under the provisions of the section 13(8) of the Act, right of redemption is available to you, by paying the dues of the Bank together with all costs, incurred by the Bank, at any time, before the date of publication of notice, for public auction or inviting quotations or tender from public or private treaty for transfer by way of lease assignment or sale of the secured assets.

This notice is issued without prejudice to the rights of the Bank available under any other law. Date: 12.01.2018 Place: Deoria

Authorized Officer, Andhra Bank

इंटरनेट के लिए अब नेपाल ने थामा चीन का हाथ

काटमांडो, १२ जनवरी (भाषा)।

नेपाल के निवासियों ने आज हिमालय पर्वत पर बिछी चीन की ऑप्टिकल फाइबर लिंक के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी के साथ साइबर दुनिया से जुड़ने के लिए उनकी भारत पर निर्भरता समाप्त हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक, रसुवागढी सीमा के माध्यम से चीनी फाइबर लिंक की ओर से मिलने वाली इंटरनेट की प्रारंभिक स्पीड 1.5 गीगाबीट प्रति सेकेंड होगी, जो कि भारत से मिलने वाली स्पीड से कम है। बीरतनगर, भैरहवा व बीरगंज के माध्यम से भारत 34 जीबीपीएस की स्पीड मृहैया कर रहा था।

उन्होंने कहा कि हिमालय पर्वतों में चीन के ऑप्टिकल फाइबर लिंक का वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो गया है। नेपाल के सूचना एवं संचार मंत्री मोहन बहादर बासनेत ने नेपाल-चीन सीमा पार ऑप्टिकल फाइबर लिंक का यहां एक कार्यक्रम में उद्घाटन किया। साल 2016 में सरकारी कंपनी नेपाल टेलीकॉम ने चीन की सरकार कंपनी चाइना टेलीकम्युनिकेशन ने चीन के माध्यम से नेपाल में इंटरनेट के परिचालन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। नेपाल व चीन के बीच स्थापित ऑप्टिकल फाइबर लिंक देश भर में इंटरनेट बुनियादी ढांचे के विकास में महत्त्वपूर्ण उपलब्धि होगी।

स्नातक दाखिला प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा दिल्ली विश्वविद्यालय

सुशील राघव नई दिल्ली, 12 जनवरी।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत इस साल दाखिला प्रक्रिया अप्रैल में ही शुरू हो सकती है। दुसरी ओर, विश्वविद्यालय इस बार दाखिला प्रक्रिया को छोटा करने के उद्देश्य से ऐसा तंत्र विकसित करने की कोशिश कर रहा है जिससे पिछले सालों के मुकाबले कम कटऑफ जारी की जाएं। 2017 में 11 कटऑफ जारी की गई थीं।

डीयू ने नए साल की शुरुआत में ही शैक्षणिक सत्र 2018-19 के दाखिलों की कवायद शुरू कर दी है। सबसे पहले चार जनवरी को प्रवेश समिति का गठन किया गया और 15 जनवरी को प्रवेश से संबंधित प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन भी प्रस्तावित है। प्रेस कांफ्रेंस में स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल और पीएचडी में प्रवेश से संबंधित घोषणाएं की जाएंगी। प्रवेश समिति के एक सदस्य के मुताबिक, पिछले साल 22 मई को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और



• इस वर्ष अप्रैल में ही शुरू हो सकती है स्नातक पाठ्यक्रमों की दाखिला प्रक्रिया

• कटऑफ की संख्याओं को भी कम करने का तंत्र विकसित कर रहा डीय

अंतिम कटऑफ 23 अगस्त को जारी की गई थी। इस लिहाज से दाखिला प्रक्रिया तीन महीने चली जो जरूरत से ज्यादा लंबी थी। विश्वविद्यालय इस प्रक्रिया को छोटा करना चाहता है। इसके लिए सबसे पहले तो प्रवेश प्रक्रिया को अप्रैल में ही शुरू कर दिया जाएगा। दुसरी ओर, कटऑफ की संख्या को भी सीमित किया जाएगा। इसके लिए एक नया तंत्र विकसित किया जाएगा। इसके लिए कॉलेजों के प्राचार्यों और अन्य हितधारकों से बातचीत की जाएगी। इसके अलावा पिछले साल प्रवेश प्रक्रिया में जो कमी रह गई थीं, उन्हें भी दूर करने की कोशिश की जाएगी।

प्रदर्शन कर रहे करणी सेना के 70 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया

मुंबई, 12 जनवरी (भाषा)।

राजस्थान की करणी सेना के 70 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को शुक्रवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने के सिलसिले में हिरासत में लिया गया। ये कार्यकर्ता फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को रिलीज करने की इजाजत देने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि करणी सेना के 30 से ज्यादा समर्थकों को हाजी अली से गिरफ्तार किया गया। जोन दो के पुलिस उपायुक्त ध्यानेश्वर चव्हान ने बताया कि पुलिस की अनुमित के बिना सीबीएफसी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे करणी सेना के 70 से ज्यादा समर्थकों को दक्षिणी मुंबई के कुमबल्ला पहाड़ी क्षेत्र से हिरासत में लिया गया।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के दफ्तर के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन

संस्थान द्वारा विरोध प्रदर्शन की धमकी दिए जाने के बाद कार्यालय के बाहर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था। फिल्म को रिलीज करने के सीबीएफसी के फैसले पर विरोध जताते हुए करणी सेना के एक नेता ने कहा कि केवल फिल्म का नाम बदल देना काफी नहीं है। ब्रिटिश काल से काम कर रहे सीबीएफसी को यह नहीं मालुम कि काम कैसे करते हैं। करणी सेना ने सीबीएफसी के प्रमुख प्रसुन जोशी के इस्तीफे की भी मांग की है। सीबीएफसी ने फिल्म को यू/ए सर्टिफिकेट देने के साथ ही उसमें कई बदलाव करने के सझाव दिए थे। इनमें फिल्म का शीर्षक बदले जाने को भी कहा गया था।

पंजाब नैशनल बैंक 🕒 punjab national bank सर्किल कार्यालयः नोएडा, शाखा-सेक्टर-18, नोएडा (उ.प्र.) कब्जा सुचना (अचल/चल सम्पत्ति के लिये)

रतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (द्वितीय) प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंगर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे तालिका में वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारक को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

जाता है कि यहाँ नीचे तालिका में वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन

ऋृणधारक तथा गारन्टर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदृद्वारा ऋणधारक तथा गारन्टर्स तथा आम जनता को सुचित किया

सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस राशि तथा उस पर ब्याज के लिये पंजाब नेशनल बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

4		ऋणधारक तथा गारन्टर का नाम	गिरवी⁄चार्ज्ड सम्पत्ति एवं	सूचना 13(4) में बकाया	कब्जा स्
ĺ			ंगार्न्टर का नाम	राशि	की
i	183	3	5.0		तिथि
ı	मै.	द हाबर सोसायटी द्वारा उसके अध्यक्ष रविन्द्र सिंह, पंजी. कार्यालयः मल्लीताल,	खतोनी नं 73, खसरा नं.	उस पर आगे के ब्याज, लागत	10.1.2
ı	बो	राकुग ग्रामः सल्लादी पट्टी, पाण्डे गाँव, भीमताल, जिला नैनीताल, उत्तराखंड-	361, ग्राम सल्लादी पट्टी,		
ı		3136		को रु. 88,21,986.50 (रुपये	
ı		श्री प्रकाश चन्द्र जोशी, पताः मकान सं. 167 डी, पॉकेट 4, मयूर विहार फेज-1,	नैनीताल, उत्तराखंड-263136		
		110001		जी भी व्यापाती गर्न मैचे मनाम	

अलाव के धुएं से एक ही परिवार के चार की मौत

सिद्धार्थनगर, 12 जनवरी (जनसत्ता)।

जिले के डुमरियागंज थाना रिधार में चार लोगों की मौत गीषण ठंड में कमरे में अलाव कर सोने से हो गई।

BERVIN INVESTMENT & LEASING LTD.

CIN No.: L65993DL1990PLC039397, Regd. Office: 607, Rohit House, 3, Tolstoy Marg. New Delhi -110 001. Website: www.bervin.com, Email Id: secretary@bervin.com

Notice of Board Meeting

ursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 lotice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 30th January, 2018 to inter-alia consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 31st Deci 2017. Further, as per the provisions of the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations

2015 and Company's Code for Prevention of Insider Trading, the Trading Window for February, 2018 for the purpose of announcement / declaration of such results by th The said notice can be accessed on the Company website at www.bervin.com as well

आगे अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड http://www.morepen.com नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज

http://www.nseindia.com http://www.bseindla.com

मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि सेबी (लिस्टिंग दायित्वों एवं डिस्क्लोजर

श्रावश्यकताओं) अधिनियम, 2015 के विनियमन 47 के अनुसरण में, अन्य तथ्यों के

साथ, 31 दिसम्बर, 2017 को समाप्त हुई तिमाही एवं नौमाही के गैर-लेखापरीक्षित

वैतीय परिणामो पर विचार, अनुगोदन एवं अभिलेखन हेत् कंपनी के निर्देशक गंडल

🖫 🏁 सोमवार, 22 जनवरी, 2018 को आयोजित होना निर्धारित है।

DABUR INDIA LIMITED CIN - L24230DL1975PLC007908

Regd. Office: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002 Tel. No. - 011-23253488, Fax No. - 011-23222051 Website - www.dabur.com; e-mail: investors@mail.dabur

कब्जा सुचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

-- -- :::: ... ::::.

-- w ---:: ----

...

.....

-- -- ---- ::--... ;;;==

-- :::: 200-1

... ::::: :::::::

III---- III

... 8... ..

-- --- ---- ----



:: white ::::

55 1250 52855 .--

-- ----

THE SECOND SECON